

February 12, 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai -400 001

Scrip Code: 502820

ISIN: INE498A01018

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Scrip Code: DCM

Subject: Newspaper Advertisement regarding Notice of Postal Ballot

Dear Sir/Madam,

In continuation to our letter dated February 9, 2024 regarding the Postal Ballot Notice, please find enclose the copies of the newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) regarding the said Postal Ballot Notice.

You are requested to take the above information on record.

Thanking You, Yours truly, For DCM Limited

Yadvinder Goyal Company Secretary

Encl. - as stated above

FINANCIAL EXPRESS



CAN FIN HOMES LTD.

59-60. First Floor, Neelam Bata Road, NIT, Faridabad-121001 Ph.: 0129-2436596, 2436527 Mob.: 7625079140 Email: faridabad@canfinhomes.com CIN: L85110KA198PLC008699

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 9(1)] Sale notice for sale of immovable properties

SALE NOTICE for Sale of immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 read with proviso to Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

NOTICE is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd. Faridabad Branch, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 28.02.2024 for recovery of Rs.1,01,80,300/- (Rupees One Crore One Lakh Eighty Thousand Three Hundred Only) due to Can Fin Homes Ltd. from Mrs. Rajeshwari Navinchand Jain and Mr. Yash Pal Jain as on 09.02.2024 together with further interest and other charges thereon. The reserve price will be Rs. 37,50,000/- (Rupees Thirty Seven Lakh Fifty Thousand Only) and the earnest money deposit will be Rs. 3,75,000/- (Rupees Three Lakh Seventy Five Thousand Only)

Description of the property

PLOT NO. 2059. ENTIRE FIRST FLOOR. SAINIK COLONY. SECTOR 49. FARIDABAD HARYANA 121001. **Boundaries:**

NORTH: PLOT NO. 2060. SOUTH: PLOT NO. 2058

EAST: OTHER PROPERTY, WEST: 30 FT ROAD Encumbrances: NIL

The detailed terms and condition of sale are provided in the official website of Can Fin Homes Ltd., (www.canfinhomes.com). Please refer to the following link https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx

Date: 09.02.2024 Place: Faridabad



Sd/- Authorised Officer

Can Fin Homes Ltd.

PREMISES REQUIRED FOR BRANCH

"Union Bank of India requires a premises in Gaur Yamuna City township, Yamuna expressway, Noida ,on lease having commercial usage approval admeasuring 1260-1540 Sq Feet carpet area on single floor in ready possession or under construction (possession within 3 months) for opening of our new branch in Gaur Yamuna city township. The premises shall be located only in township of Gaur Yamuna City, Yamuna express way, Noida. Further the new premises must also comply with below mentioned specifications: -

- Premises should be on Ground floor.
- Parking facility should be available free of cost.
- Floor to ceiling height of premises should be minimum 11 Feet.
- 4. Premises must be available on main road.
- Frontage of premises shall be minimum 20 Feet.
- 6. L1 bidder to ensure construction of strong room as per RBI Guidelines under Architectural plan & supervision of Bank's empaneled Architect (Specifications are Wall thickness 300mm, floor/roof thickness 300 mm. Concrete mix for construction of wall, roof. floor should confirm to M20 minimum, Reinforcement steel bars-12 mm, Reinforcement grid mesh in mm 150 X 150 X 150 CTC), 2 toilets (1 for Gents, 1 for Ladies), 1 Pantry, Ramp for Physically challenged persons, vitrified floor Tiles & windows (With minimum 12 mm steel bars) as per Bank requirement, Rolling shutter & collapsible gate for branch and ATM separately as per Bank's Requirement, Painting of premises/whitewash as per Bank's requirement & Sanitary fittings at their own cost. Separate Electrical meter in Bank's name to be provided by L1 Bidder at their cost.
- Continuous water supply and water tank to be provided by L1 bidder.
- 9. L1 bidder to provide separate room for onsite ATM within the area of premises as pe
- Bank's Requirement at their cost. 10. L1 bidder to provide space for keeping Generator & space on rooftop for alternate
- connectivity tower and solar panel free of cost. Prospective vendors holding ownership or power to negotiate on behalf of owners may

collect the technical bid/price bid formats from Union Bank of India Regional Office at 2nd floor, Mahaluxmi Mall, C-2, RDC, Rajnagar, Ghaziabad, UP-201001 from 10.00AM to 05.00 PM or download from the bank website www.unionbankofindia.co.in or govt. portal www.eprocure.gov.in and should submit their technical and price bid offers in two separate sealed covers super-scribing technical bid & price bid separately on or before 03.03.2024 by 3:00 PM to Union Bank of India Regional Office at 2nd floor, Mahaluxmi Mall, C-2, RDC, Rajnagar, Ghaziabad, UP-201001, The technical bid will be opened on 03.03.2024 at 03:30 PM on the above address in presence of vendors/their representatives. No broker or intermediaries will be entertained. Priority will be accorded to the property to be leased by the public sector undertakings or Government/Semi Government bodies. Bank reserves its right to accept or reject the offers without assigning any reasons whatsoever' REGIONAL HEAD

DCM LIMITED

Regd. Office: Unit Nos. 2050 to 2052, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006 CIN-L74899DL1889PLC000004 Ph: 011-41539170 Email Id: investors@dcm.in Website: www.dcm.in

Notice of Postal Ballot Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110

and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, ("the Rules"), General Circular Nos. 14 2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/ 2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars") Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, ("SEBI Listing Regulations" and any other applicable laws, rules, circulars, notifications and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the approval of the members of the Company (as on the "Cut-off Date") ("Members" or "Equity Shareholders"), is sought via postal ballot only by way of voting through electronic means ("remote e-voting"/"e-voting") for following Ordinary Resolution

S. No.	Description of the Ordinary Resolution
1	Approval for entering into material related party transaction/

Infrastructure Limited. Pursuant to the MCA circulars, the Company has completed the dispatch of electronic

copies of the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on Friday, February 9, 2024, through electronic mode to those Members whose email address are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') /depository participant(s) as on Friday, February 2, 2024 ("Cut-off Date"). The said Notice is also available on the website of the Company: www.dcm.in, the

relevant section of the website of BSE Limited ("BSE"); www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"): www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL"): www.evoting.nsdl.com.

One equity share of the Company represents one vote. In accordance with the provisions of the MCA circulars, Members can vote only through e-voting process. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the names of the shareholders as on Friday, February 2, 2024 being the cut-off date fixed for this purpose Further once the vote on the resolution is cast by member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. Any person who is not a shareholder of the Company as on the Cut-off Date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. The e-voting facility will be available during the following period:

EVEN NO	'127726'
Commencement of e-voting period	9.00 a.m. IST on Saturday, February 10, 2024
Conclusion of e-voting period	5.00 p.m. IST on Sunday, March 10, 2024
Cut-off date for eligibility to vote	Friday, February 2, 2024
T1 1 101 10 1 11 11	11 NOBL :

The e-voting facility will be disabled by NSDL immediately after 5.00 p.m. IST on Sunday, March 10, 2024.

Members who have not updated their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held by them in electronic form with the Depository through their Depository participant and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent, MCS Share Transfer Agent Limited either by email to admin@mcsregistrars.com or by post to F-65, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi - 110 020.

The Board has appointed Mrs. Pragnya Parimita Pradhan, Company Secretary in whole time practice, Proprietor of M/s Pragnya Pradhan & Associates, Company Secretaries having CP No. 12030, as the Scrutinizer, to conduct the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer will submit her report to the Chairman or any other person authorized by the Chairman after the completion of scrutiny of the e-voting, and the result will be announced within Two Working Days from the conclusion of e-voting i.e. on or before Tuesday, March 12, 2024, and will also be displayed on the Company's website www.dcm.in and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com), and communicated to the stock exchanges, depositories, Company's RTA.

In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre. Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com or contact Mr. Alay Dalal, Sr. Manager or Mr. Amariit, Sr. Manager, MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi - 110020, email admin@mcsregistrars.com or call on 011-41406149-52.

For DCM Limited Yadvinder Goyal Place: Delhi Date: 09.02.2024 Company Secretary



MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED

Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034, CIN NO – U65922KL2010PLC025624, Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo, Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517 Email Id: authorised.officer@muthoot.com

APPENDIX -IV[Rule 8(1)] Possession Notice (For Immovable Property)

of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 (ACT NO.54 OF 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice to below mentioned Borrower/s / Guarantor/s. After completion of 60 days from date of receipt of the said notice, The Borrower/s / Guarantor/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/s / Guarantor/s and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on them under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this. Date of Demand Total O/s Amount (Rs.)

NO	Name of Borrower / Co-Borrower/ Guarantor	Notice	Future Interest Applicable	Date of Possession			
	LAN No. 15100123339 1. Shalini Dubey, 2. Rajpal Dubey	23-September-2023	Rs.16,00,175/- as on 14-September-2023	08-February-2024			
Description of Secured Asset(s) /Immovable Property (ies): - ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEING HOUSE NO 07, KHASRA NO							

· 2996,SHAHPUR BAMHETA, MANSAROVAR PARK, PARGANA – LONI, TEHSIL & DISTT - GHAZIABAD, UTTAR PRADESH – 201002, AREA ADMEASURING 105 SQUARE YARDS. BOUNDARY OF PLOT ARE: - EAST: - 15 FEET WIDE ROAD, WEST: - OTHER PLOT, NORTH: - OTHER PLOT, SOUTH: - OTHER PLOT he Borrower/s / Guarantor/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Muthoot Housing Finance Company Limited, for an above mentioned demanded amount and further interest thereon. Place: Uttar Pradesh, Date: 10 February, 2024 Sd/- Authorised Officer, For Muthoot Housing Finance Company Limited

BCC fuba



Regd. Office: 4 K.M., Swarghat Road, Nalagarh-174101, Distt. Solan (H.P.) Tel: 8626853157 . Website: www.bccfuba.com

Quarter ended

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter/Nine Months ended December 31, 2023 (Figures in Lakhs)

SI. No.	Particulars	December 31, 2023 Unaudited	September 30, 2023 Unaudited	December 31, 2022 Unaudited	December 31, 2023 Unaudited	December 31, 2022 Unaudited	March 31, 2023 Audited
1	Total Income From Operations	626.38	779.74	805.49	2,475.63	1,988.89	2,897.28
2	Net Profit/(Loss) for the Period (Before Income Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	54.76	112.85	76.79	316.57	129.60	244.58
3	Net Profit/(Loss) for the Period (before Income Tax after Exceptional and/or Extraordinary Items)	54.76	112.85	76.79	316.57	129.60	244.58
4	Net Profit/(Loss) for the Period (After Income Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	45.62	94.01	76.79	263.73	129.60	230.12
5	Total Comprehensive Income for the period	45.62	94.01	76.79	263.73	129.60	225.02
6	Paid Up Equity	1,531.01	1,531.01	1,531.01	1,531.01	1,531.01	1,531.01
7	Earnings Per Share (of Rs 10/each) (For Continuing and Discontinued Operations)						
	i) Basic	0.29	0.61	0.50	1.71	0.85	1.47
	ii) Diluted	0.29	0.61	0.50	1.71	0.85	1.47

The above is an extract of detailed format of Nine Months/Quarterly unaudited Financial Results filed with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Nine Months/Quarterly Unaudited Financial Results is available on the stock exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.bccfuba.com.

The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on Feb 09, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited review of the standalone financia Results for the nine months/quarter ended on December 31, 2023.

For and on behalf of the Board of Directors

Nine Months Ended Year ended

Place: New Delhi Dated: February 09,2024 Abhinav Bhardwaj Director Din No: 06785065

FCS SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED CIN No. L72100DL1993PLC179154

Reg. Office: 205, 2^{to} Floor, Agarwal Chamber IV, 27, Veer Sawarkar Block, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-92

Corporate Office: Plot No. 83, NSEZ, Noida Dadri Road, Phase-II, Gautam Budh Nagar, Noida- 201305 STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS OF FCS SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 PREPARED IN COMPLIANCE WITH INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (Ind-AS)

Particulars	QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2023 UNAUDITED	YEAR ENDED MARCH 31, 2023 AUDITED	YEAR ENDED MARCH 31, 2022 AUDITED
Total Income from Operations (Net)	906.93	3,491.39	3,461.69
Net Profit (+)/ Loss (-) from Ordinary Activities after tax	(457.24)	145.98	(5.23)
Net Profit (+)/ Loss (-) for the period after tax (after extra-ordinary items)	(457.24)	145.98	(5.23)
Equity Share Capital	17,095.53	17,095.53	17,095.53
Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	(1,392.40)	(438.53)	(586.45)
Earning Per Share (Rs)* (Not annualised)	- John Carrotter	0.0000000000000000000000000000000000000	
Basic before Extraordinary items (in Rs.)	0.001	(0.000)	(0.000)
Diluted before Extraordinary items (in Rs.)	0.001	(0.000)	(0.000)
Basic after Extraordinary items (in Rs.)	0.001	(0.000)	(0.000)

1) Standalone Information

Particulars	QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2023 UNAUDITED	YEAR ENDED MARCH 31, 2023 AUDITED	YEAR ENDED MARCH 31, 2022 AUDITED
Total Income from Operations (Net)	898.44	3,494.88	3,431.59
Net Profit (+)/ Loss (-) from Ordinary Activities after tax	(449.25)	194.66	7.92
Net Profit (+)/ Loss (-) for the period after tax (after extra-ordinary items)	(449.25)	194.66	7.92
Equity Share Capital	17,095.53	17,095.53	17,095.53
Basic before Extraordinary items (in Rs.)	0.005	0.000	0.000
Diluted before Extraordinary items (in Rs.)	0.005	0.000	0.000
Basic after Extraordinary items (in Rs.)	0.005	0.000	0.000
Diluted after Extraordinary items (in Rs.)	0.005	0.000	0.000

0.001

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites on BSE (www.bseindia.com), on NSE (www.nseindia.com) and on the Company websites (www.fcsltd.com) By order of the Board of Directors

Place: Noida

Diluted after Extraordinary items (in Rs.)

For FCS Software Solutions Ltd

(0.000)

(0.000)

Date: February 09, 2024

SAH POLYMERS LIMITED

Regd. Office: E-260-261, Mewar Industrial Area, Madri, Udaipur -313003 CIN: U24201RJ1992PLC006657 Email:info@sahpolymers.com, website: www.sahpolymers.com, Tel: 0294-2490534, Fax No. 0294-2490534

EXTRACT FROM THE UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31,2023 Amount in Rs. Lakhs, except share and per share data unless otherwise stated Quarter ended Nine months ended Year ended SI. PARTICULARS 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 2684.33 2802.77 2258.15 7869.99 7680.75 9721.62 Total Income from Operations 2 Net Profit for the period before Tax and Exceptional items 13.77 126.89 117.75 512.40 16.64 442.64 3 Net Profit for the period before tax and after Exceptional 13.77 126.89 16.64 117.75 442.64 512.40 4 Net Profit for the period after tax and after Exceptional items 101.27 335.13 7.33 11.42 79.86 376.06 Total Comprehensive Income for the period (after tax) and 7.333 11.42 101.27 335.13 376.06 Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital(refer note 4) 2579.60 2579.60 1559.60 2579.60 1559.60 2579.60 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the 6175.58 **Audited Balance Sheet**

2. Diluted Note:

Place :Udaipur

Date: February 9, 2024

1. Basic

8 Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and

discontinued operations) (refer note 4)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly-Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Company www.sahpolymers.com and of National Stock Exchange Limited (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com). Key standalone financial information:

0.03

0.03

0.04

0.04

0.65

0.65

0.31

0.31

2.15

2.15

2.10

2.10

SI.	PARTICULARS	11	Quarter ended		Nine months ended		Year ended	
No.	LEADER STOCKER	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Total Income	2620.63	2679.48	1752.61	7305.85	6867.65	8385.82	
2	Profit/(loss) before tax	5.94	11.95	101.83	72.88	335.54	410.60	
3	Profit(loss) for the period after tax	4.64	10.73	78.86	57.96	247.54	305.64	
4	Other Comprehensive Income	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Total Comprehensive Income for the period	4.64	10.73	78.86	57.96	247.54	305.64	

 The above financials have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 4, 2024. 4. The equity share and basic/diluted earning per share for the comparative period (year ended 31.03.2023) have been presented in accordance with Inds AS 33-Earning per share. for SAH POLYMERS LIMITED

Hakim Sadiq Ali Tidiwala Wholetime Director DIN: 00119156



INDIAN TONERS & DEVELOPERS LIMITED CIN: L74993UP1990PLC015721

Regd.Off.: 10.5 KM Milestone, Rampur-Bareilly Road, Rampur-244901 Website: www.indiantoners.com, E-mail: info@indiantoners.com, Phone: 011-45017000

Extract of Unaduited Financial Results for the Quarter and Nine Wonth Ended 31st December, 2023

SI.	Particulars	Quarter ended			Nine Mor	Year ende	
No.	rantoulars	31.12.2023 (Unaudited)		31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)		31.03.202 Audited
1.	Income from operations	3,708.47	3,980.25	3,968.33	11,395.80	11,216.34	15,516.9
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	786.56	833.40	814.59	2,455.67	2,299.72	3,409.6
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	786.56	833.40	814.59	2,455.67	2,299.72	3,409.6
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional items	564.41	500.94	757.83	1,752.13	1,894.08	2,631.4
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	565.59	500.59	768.25	1,755.22	1,925.35	2,637.1
6.	Equity Share Capital	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	1,085.0
7.	Earnings per share of Rs 10 each			-			
3	(a) Basic (Rs)	5.21	4.61	6.98	16.15	17.46	24.2
19	(b) Diluted (Rs)	5.21	4.61	6.98	16.15	17.46	24.2

The above financial results were reviewed by the Statutory auditors of the company, reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 9th Feb, 2024. The review report of the Statutory Auditors is being filed with the Bombay Stock Exchange.

The above is an extract of the detailed format of the Unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended Dec 31, 2023, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations. 2015. The full format of the Unaudited financial results for the guarter and nine months ended Dec 31, 2023 alongwith review report of the Statutory Auditors is available under Investors section of our website at www.indiantoners.com and under Financial Results at Corporate section of www.bseindia.com

> BY Order of the Board For Indian Toners and Developers Limited

Place: New Delhi Date: 9th February, 2024

(SUSHIL JAIN) Chairman DIN: 00323952

Capital Trade Links Limited CIN: L51909DL1984PLC019622

Regd. Office: 102-103, First Floor, Surya Kiran Building, 19 K.G.Marg, Connaught Place, New Delhi 110001 Website: www.capitaltrade.in & Email: info@capitaltrade.in **Extract of Unaudited Standalone Financial Results**

for the guarter and nine months ended December 31, 2023

(in Lakhs)

S.	\$10.50 \$4.00000000000000000000000000000000000	Quarter Ended			Nine mon	Year Ended	
No.	Particulars	31.12.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited
1	Total Income	1829.13	937.97	479.14	3474.71	1151.49	1683.99
2	Net Profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	715.79	188.79	129.31	1099.21	310.96	373.57
3	Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and extraordinary items)	715.79	188.79	129.31	1099.21	310.96	373.57
4	Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	560.83	132.17	72.71	827.76	198.52	249.74
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax) and other comprehensive income (after tax)]	560.83	132.17	72.71	827.56	198.52	249.74
6	Equity Share Capital	609.8	609.8	609.8	609.8	609.8	609.8
7	Reserves excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the year	3243.62	3243.62	3243.62	3243.62	3243.62	3243.62
8	Earnings per Share (for continuing and discontinued operations)						
1	A- Basic(Rs.)	0.92	0.22	0.12	1.36	0.33	0.41
1 3	B- Diluted (Rs.)	0.92	0.22	0.12	1.36	0.33	0.41

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company on
- 2. The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the guarter and nine months ended December 31. 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended are available on the website of BSE at www.bseindia.com and on Company's website www.capitaltrade.in

On behalf of Board of Directors of Capital Trade Links Limited

Date: February 9, 2024 Place: Delhi

Vinay Kumar Chawla Whole Time Director DIN: 02618168

Clix Capital Services Private Limited

Regd. Office: Aggarwal Corporate Tower, Plot No. 23, 5th Floor, Govind Lal Sikka Marg, Rajendra Place, New Delhi- 110008 Telephone: 0120-6465400 Website: www.clix.capital

Extract of standalone financial results for the guarter ended 31 December 2023

		Quarter	ended	Year ended
S. No	Particulars	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	23,922	18,300	69,068
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,218	927	5,419
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,218	927	3,365
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,660	694	2,441
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,568	706	2,469
6	Paid up Equity Share Capital	1,43,599	1,43,599	1,43,599
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	64,716	58,285	59,524
8	Securities Premium Account	10,304	10,304	10,304
9	Net worth	2,08,315	2,01,884	2,03,123
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	4,06,315	3,26,118	3,30,608
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	1.95	1.62	1.63
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations)* -			
1	Basic:	0.12	0.05	0.17
Ì	Diluted:	0.11	0.05	0.16
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

Quarter ended basic EPS and Diluted EPS are not annualised

New Delhi

Place: Gurugram

Date: 09 February 2024

Note 1: The above results for the guarter ended 31 December 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 09 February 2024, in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and disclosure requirements) Regulations, 2015, as amended.

Note 2: The above is an extract of the detailed format of the guarter ended results filed with the National Stock Exchange ('NSE') under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on the website of National Stock Exchange (www.nseindia.com) and is also available on the Company's website

Note 3: For the items referred to in the sub-clauses of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange and can be accessed on www.nseindia.com Note 4: During the financial year ended 31 March 2023, the Board of Directors of the Company had approved a Scheme of

Amalgamation ("the Scheme") for Amalgamation of its wholly owned subsidiary Clix Housing Finance Limited (CHFL) into the Company. The Company approached all the stakeholders including Reserve Bank of India (RBI) for No objection for the same. RBI had vide its letter dated October 27, 2022 and January 31, 2023 given its no objection for the Company & CHFL, respectively. In the interim both the companies are re-evaluating the option of going ahead with the Scheme.

> For and on behalf of the Board of Directors **Clix Capital Services Private Limited** Rakesh Kaul

Whole-time Director

financialexp.epap.in

ADITYA BIRLA

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

पजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयन कपाउंड, वरावल, गुजरात— 362266 शाखा कार्यालयः आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, सी–23, शकुन एम्पोरिया, दूसरी मंजिल, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान-302001

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1) देखें) कब्जा-सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (२००२ का ५४) के तहत आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड,शाखा का पताः दुसरी मंजिल, सी–23, शकुन एम्पोरिया, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–302001 के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पिठत धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22.11.2023 को एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता अर्थात मै. यूनिक एम्पोरियम को प्रोपराइटर श्री अशोक भदिया, श्रीमती नीलम भदिया, श्री आशीष भदिया के माध्यम से नोटिस में उल्लिखित राशि रु.1,04,47,993/— (रुपये एक करोड़ चार लाख सैंतालीस हजार नौ सौ तिरानबे मात्र)उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा है।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता के एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ निम्न वर्णित संपत्ति पर 08 फरवरी 2024 को प्रतीकात्मक किब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन रुपये रु.1,04,47,993/— (रुपये एक करोड़ चार लाख सैंतालीस हजार नौ सौ तिरानबे मात्र) और उस पर ब्याज की राशि हेत् आदित्य बिडला फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह समस्त हिस्सा और अंशः ''प्लॉट नंबर–05, खसरा नंबर 193 एमआई , 194, | 195 एमआई, 1439/195, विवेकानंद विहार, राजस्व गांव शोभागपुरा, उदयपुर, |राजस्थान–313004′

दिनांकः 08.02.2024 प्राधिकृत अधिकारी स्थान : उदयपुर आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ांजीकृत कार्यालयः 27BKC, C–27, G–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई— 400051 शाखा कार्यालयः कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एससीओ 120, 6वीं मंजिल, फिरोज गांधी मार्केट फिरोजपुर रोड लुधियाना 141001

जबिक, अधोहस्ताक्षरी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के

प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जैसा कि नीचे दिया गया है, संबंधित उधारकर्ताओं को उसी की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शूल्कों और खर्चों के साथ उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त ऋणीध्सह—उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओंध्सह—उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उस पर उल्लिखित तिथियों को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम तौर पर जनता को सावधान किया जाता है कि वे संपत्तियों के साथ सीदा न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन करने पर संबंधित तिथियां से भविष्य में ब्याज, लागत और शुल्क के साथ इसमें निर्दिष्ट राशि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। सरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उधारकर्ताओं का विवरण, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि, कब्जे की तारीख नीचे दी गई है:

अचल संपत्ति का 1. कब्जे की तिथि 3. मांग सूचना दिनांक

2. कब्जे का प्रकार 4. देय राशि रु.

3. 07.08.2023

4.₹.42,82,812 **/** −

बयालीस हजार आठ

(बयालीस लाख

मात्र) 07.08.2023

बकाया और

	पता, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि
l	श्री गफूर मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल मजीद और
	श्रीमती खुर्शीदा अख्तर पत्नी श्री गफूर
	मोहम्मद और श्री मोहम्मद अहमद पुत्र श्री
	गफूर मोहम्मद और मैसर्स इंडिया टिम्बर्स
	अपने मालिक श्री गफूर मोहम्मद के माध्यम
	से,पताः इंडियन टिम्बर, जगाधरी, निकट
	सरस्वती स्कूल, यमुनानगर हरियाणा–
	135003, सभी का पताः गांव मनकपुर, पे
	लल्हार कलां, मंदिर के पास
	हरियाणा—135103, ऋण खाता संख्या
	611539510759948, स्वीकृत ऋण राशिः रु
	35,86,250 / — (पैंतीस लाख छियासी हजार
	दो सौ पचास रूपये मात्र)।
H	

उधारकर्ता. सह–उधारकर्ता का नाम और

मौजा मनकपुर, मकान नंबर, 229, तहसील 1. 07.02.2024 बिलासपुर जिला यमुनानगर में स्थित 2. सांकेतिक कब्जा तल्हारी खुर्द, ग्राम मानकपुर में स्थित भूखंड | 3. 12.10.2023 पर घर की संपत्ति का वह समस्त टुकड़ा 4.रु. 37,69,151/-और अंश ,माप 01 कनाल 04 मरला, जो | (केवल सैंतीस लाख उनहत्तर हजार खेवटध्खतौनी संख्या 10 / 11, खसरा संख्या 46६६२४ (7-11) में शामिल,जो 24६151 रुपये)12 10 2023 हिस्सा है। जो निम्नानुसार घिरा हुआः पूर्वः 65' मार्ग, पश्चिमः 65' बंटी और राजबीर की बकाया और 13. संपत्ति, उत्तर 100' मार्ग, दक्षिणः 100'संपत्ति | 10.2023 से पूर्ण का हिस्सा। बंधककर्ता का नामः श्री गफूर | भूगतान तक लागू मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल माजिद श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री यशपाल गुप्ता, पता : | एरेन्स जय सिटी, सेक्टर—24, | 1. 07.02.2024 जगाधरी, जिला यमुनानगर, नगर 2. सांकेतिक कब्जा ईश्वर मेटल हाउस,देवी भवन बाजार, जगाधरी,

निगम यमुनानगर के भीतर स्थित खेड़ा मंदिर के पास, यमुनानगर फ्लैट संख्या एल-5 की पहली हिरियाणा—135003 और श्रीमती निधि गुप्ता पत्नी मंजिल का समस्त टुकड़ा और अंश श्री महेश गप्ता के माध्यम से दोनों का पता माप :425 वर्ग गज पंजीकत बिक्री मकान नंबर 1433, गोमती स्ट्रीट, जगाधरी, यमुना विलेख संख्या 5635 दिनांक नगर, हरियाणा—135001 दोनों यहाँ पर भीः 05-09-2019 के माध्यम से जगाधरी फ्लैट नंबर एल-5, पहली मंजिल, एरेन्स जय के स्वामित्व में है, सीमाएँ: पूर्व: प्लॉट सिटी, सेक्टर–24, जगाधरी, यमुना नगर, संख्या एल–80, पश्चिमः 15 मीटर | तक देय और हरियाणा—135001, ऋण खाता संख्याः चौडी सडक उत्तर: प्लॉट नंबर 611507210502243 ,ऋण स्वीकृत राशिः रु. | एल–०६, दक्षिणः प्लॉट नंबर एल–०४ | 08.08.2023 से पूर्ण बंधककर्ता का नामः श्री महेश गुप्ता | भगतान तक लागू | 27,47,790 / — (सत्ताईस लाख सैंतालीस हजार | पुत्र यशपाल गुप्ता सात सौ नब्बे रूपये मात्र)। दिनांकः १०.०२.२०२४, स्थानः लुधियाना

कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी , किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री कंचन नारा (+919463227690) और श्री गुरपाल सिंह (+918976898212) से संपर्क करें।

DCM LIMITED

पंजी. कार्यालयः यूनिट नं0. 2060 से 2062, दुसरा तल, प्लाजा–॥, सेंट्रल स्क्वायर, 20, मनोहर लाल खुराना मार्ग, बारा हिंदू राव, दिल्ली-110008 CIN- L74899DL1889PLC000004 फोनः 011-41539170 ईमेल आईडी: investors@dcm.in, वेबसाइट: www.dcm.in

हाक मतपत्र सूचना

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013, यथासंशोधित ("अधिनियम") की धारा 108 एवं 110 के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित (''नियम'') के नियम 20 एवं 22, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपन्न सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 और 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 ("एमसीए परिपत्र"), मारतीय कंपनी सविव संस्थान द्वारा जारी किए गए सामान्य बैठकों पर सविवीय मानक ("एसएस-2") और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों,

मतपत्र के माध्यम से ली जाती है: सामान्य प्रस्ताव का विवरण प्योरएथ इन्फ्रास्ट्रक्वर लिगिटेड के साथ महत्वपूर्ण संबंधी पार्टी लेनदेन में शामिल होने के लिए मंजूरी।

यथा संशोधित (''सेबी सूचीयन विनियम'') और कोई अन्य लागू कानूनों, नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं एवं विनियमों (वर्तमान में उस पर लागू कोई सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसरण में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव के लिए कंपनी के सदस्यों ("कट–ऑफ तिथि" को) ("सदस्यों" या "इक्विटी शेयरघारकों") की मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग" / "ई-वोटिंग") द्वारा केवल डाक

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी ने उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां भेजने का कार्य शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को पुरा कर लिया है जिनके ई-मेल पते शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") को कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'')/डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के पास पंजीकृत हैं।

कथित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dcm.in, बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज ढिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के संगत सेक्शन पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी का एक इक्विटी शेयर एक वोट का प्रतिनिधित्व करता है। एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार सदस्यगण केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। वोटिंग अधिकार की गणना इस उदेश्य के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 को शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के भूगतान किए गए मूल्य पर की जाएगी। इसके अलावा एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर कंपनी का शेयरधारक नहीं है वह डाक मपत्र सूचना को केवल सूचना के उदेश्य मानेगा। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-बोटिंग सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन हेत् नेशनल सिक्योटिरीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं। ई-वोटिंग स्विधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

इवन संo.	'127726'			
ई-वोटिंग अवधि की शुरूआत	शनिवार, 10 फरवरी, 2024 को प्रातः 9 बजे आईएसटी			
ई-वोटिंग अवधि का समापन	रविवार, 10 मार्च, 2024 को शाम 5.00 बजे आईएसटी			
वोट देने की पात्रता हेत तिथि	शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024			

रविवार, 10 गार्च, 2024 को साथं 5.00 बजे आईएसटी के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग सुविधा हटा ली जाएगी।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता अपढेट नहीं किया है जनसे अनरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में घारित शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास इसे पंजीकृत कराएं और भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को या तो ईमेल admin@mcsregistrars.com पर या डाक द्वारा एफ—65, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020 को लिखित अनुरोध भेजकर इसे पंजीकृत कराएं।

बोर्ड ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से डाक मतपत्र/ई-वोटिंग प्रक्रिया के आयोजन के लिए श्रीमती प्रज्ञा परिमिता प्रधान, पूर्णकालिक कंपनी सर्विव पेशेवर, मालिक मैसर्स प्रज्ञा प्रधान एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, सीपी नं. 12030 को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, और परिणाम ई-बोटिंग की समाप्ति से दो कार्य दिवसों के भीतर अर्थात् मंगलवार, 12 मार्च, 2024 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा और इसे कंपनी की वेबसाइट www.dcm.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी, कंपनी के आरटीए को इसकी सूचना मेजी जाएगी।

किसी भी पुछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग युजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 एवं 022 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं या श्री अजय दलाल, वरि. प्रबंधक या श्री अमरजीत सिंह, वरि. प्रबंधक, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, ओखला इंडिस्टियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, ई-मेलः admin@mcsregistrars.com से

> कृते डीसीएम लिमिटेड हस्ता/-वादविंदर गोयल



पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) सीआईएन : L65910MH1984PLC032639 पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 601, 6ठी मंजिल, पीरामल अमिती बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉरपोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई-400070, दुरभाष : +91 22 3802 4000 शाखा कार्यालयः एससीओ 16-17. दसरी मंजिल, फीरोज गांधी मार्केट, सामने लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, लुधियाना-141001

कब्जा सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8-(1) तथा परिशिष्ट IV के अनुसार अचल सम्पत्ति हेतु

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पर्व का देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी की मांग सुचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारक (कों)/ गारन्टर (रों) उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभित हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। ऋणधारक का ध्यान

क्र. च	कर्जदार(रों)/जमानती(यों)	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना की	कब्जा करने
सं. 1,	के नाम (ऋण कोड संख्या–14100002436), (करनाल–शाखा), रामपाल आर (कर्जदार)/कुलदीप सिंह (सह–	का विवरण प्लॉट नंबर 159 खेवट नंबर 698 एनए खसरा नंबर 132/4/2 (6-0), 132/5(3-9) खसरा नंबर 132/4/2(6-0),132/5(3-9) वार्ड नंबर 7-8		की तिथि
2.	कर्जदार) (ऋण कोड संख्या-14100004327), (करनाल-शाखा), सुरेंद्र सिंह (कर्जदार)/सुनीता एस (सह-कर्जदार)	लाडवा डिफॉल्ट हरियाणा भारत 136132 देबन वाली गमरी पट्टी काइस्थ सेठ देव कॉलोनी एरिया अंबाला रोड मुरबा नंबर 48 तहसील कैथल कैथल हरियाणा 136027	25/09/2023 रु. 2174412/- (रुपये इक्कीस लाख चौहत्तर हजार चार सौ बारह मात्र) के	07-02-2024
3.	(ऋण कोड संख्या-14100003809), (करनाल-शाखा), दिनेश कुमार (कर्जदार) / शर्मिल देवी	खेवट नंबर 166, एनए अधमी रोड के पास, अधमी रोड के पास, गांव जलमाना, तहसील बापोली, पानीपत हरियाणा भारत 132104	लिए 28/08/2023 रु. 2041215/– (रुपये बीस लाख इकतालीस हजार दो सौ पंद्रह मात्र) के लिए	06-02-2024
4.	(सह-कर्जदार) (ऋण कोड संख्या-14100002987), (करनाल- शाखा), संजय कुमार (कर्जदार) / मुकेश एम (सह-कर्जदार)	ग्राम करोरा केवट नंबर 775, एनए तहसील पुंडरी, खसरा नंबर 227 और 946 तह पुंडरी, खसरा नंबर 227 और 946 शेरदा रोड, कैथल हरियाणा भारत 136044	28/08/2023 रु. 1949818/- (रुपये उन्नीस लाख उनचास हजार आठ सौ अठारह मात्र) के लिए	07-02-2024
5.	(ऋण कोड संख्या-14100004402), (करनाल- शाखा), विनोद कुमार कश्यप (कर्जदार) / दर्शना देवी (सह-कर्जदार)	खेवट नं. 102, गली नं. 9 एनए, जगदंबा राइस मिल के पास, जगदंबा राइस मिल के पास, बलराज नगर, रकबा पट्टी जीएडी डिफॉल्ट हरियाणा 136027	18/02/2019 रु. 1910108/- (रुपये उन्नीस लाख दस हजार एक सौ आठ मात्र) के लिए	06-02-2024
6.	(ऋण कोड संख्या-29200001316), (यमुनानगर- शाखा), पलविंदर सिंह (कर्जदार) / मनदीप कौर (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर-6 का हिस्सा, पीपीआईडी- 2003246व23अ ठअ प्रॉपर्टी नंबर-C-6/1101-A, गुरु अर्जुन नगर प्रॉपर्टी नंबर-C-6/1101-A, गुरु अर्जुन नगर गोबिंदपुरी, निकट स्वामी विवेकानन्द डिफॉल्ट हरियाणा भारत 135001	27/10/2023 रु. 2822886/- (रुपये अट्टाईस लाख बाईस हजार आठ सौ छियासी मात्र) के लिए	07-02-2024
7.	(ऋण कोड संख्या–14100001957), (करनाल– शाखा), जगन नाथ (कर्जदार)/सीमा देवी (सह–कर्जदार)	खेवट नंबर 835, एनए मुबारा नंबर 31, किल्ला नंबर 11 मिन(0-2) मुबारा नंबर 31, किला नंबर 11 मिन(0-2) गांव- मुनक, उपतहसील बल्लाह करनाल हरियाणा भारत 132040	28/08/2023 रु. 1681577/- (रुपये सोलह लाख इक्यासी हजार पांच सौ सतहत्तर मात्र) के लिए	07-02-2024
8.	(ऋण कोड संख्या-19100042318), (चंडीगढ़ - एलांते- शाखा), मुकेश शर्मा (कर्जदार) / उमा शर्मा (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर 33, शिवजोत कॉलोनी एनए मौजा छछरौली, एचबी नंबर 311, मौजा छछरौली, एचबी नंबर 311, दुर्गा गैस एजेंसी के सामने और म डिफॉल्ट हरियाणा भारत 135103	18/02/2019 रु. 1654692/- (रुपये सोलह लाख चौवन हजार छह सौ बानवे मात्र) के लिए	05-02-2024
9.	(ऋण कोड संख्या-25200000436), (हिसार- शाखा), अनिल कुमार (कर्जदार) / ओम प्रकाश कंवलिया (सह-कर्जदार)	यूनिट नंबर 108, खसरा नंबर 19/19/108 एनए आजाद नगर, मुख्य सड़क, कर्ण सिंह आजाद नगर के पास, मुख्य सड़क, काम सिंह आटा चक्की के पास डिफॉल्ट हरियाणा भारत 125001	29/06/2023 रु. 1590685/- (रुपये पंद्रह लाख नब्बे हजार छह सौ पचासी मात्र) के लिए	08-02-2024
10.	(ऋण कोड संख्या-14100002838), (करनाल- शाखा), इरशाद सैफी (कर्जदार) / शबनम एस (सह- कर्जदार)	खेवट नंबर 79 मिन, गांव पावटी एनए किला नंबर 20, विकास नगर, किला नंबर 20, विकास नगर, समालखा, निकट महाराजेश्वरी एससी डिफॉल्ट हरियाणा भारत 132101	27/10/2023 रु. 2890590/- (रुपये अञ्जर्डस लाख नब्बे हजार पांच सौ नब्बे मात्र) के लिए	05-02-2024
11.	(ऋण कोड क्रमांक-14100006579), (करनाल- शाखा), सुल्तान (कर्जदार) / संतोष (सह-कर्जदार)	वीपीओ नरवालगढ़, खेवट नंबर 1078 एनए आवासीय भवन भवन आवासीय भवन भवन ग्राम बत्ता (नरवाल गढ़) डिफॉल्ट हरियाणा भारत 136117	18/02/2019 रु. 1524200/- (रुपये पन्द्रह लाख चौबीस हजार दो सौ मात्र) के लिए	06-02-2024
12.	(ऋण कोड संख्या-M0196760), (यमुनानगर- शाखा), मोहम्मद शाकिर (कर्जदार) / शाइस्ता (सह–कर्जदार)	आईडी नंबर 319C376U111 मौजा गढ़ी गुजरान अब पुराना हमीदा के नाम से जाना जाता है आईडी नंबर 319C376U111 यमुनानगर 135001	17/08/2023 रु. 1513871/- (रुपये पन्द्रह लाख तेरह हजार आठ सौ इकहत्तर मात्र) के लिए	06-02-2024
13.	(ऋण कोड संख्या-141000000899), (करनाल- शाखा), सुंदर लाल (कर्जदार)/ओम वती (सह-कर्जदार)	निघडू एनए खेवट नंबर-247 खतौनी नंबर-331 खेवट नंबर-247 खतौनी नंबर-331 मुख्बा नंबर-110 डिफॉल्ट हरियाणा भारत 132157 में स्थित संपत्ति	25/01/2019 रु. 1422374/- (रुपये चौदह लाख बाईस हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र) के लिए	07-02-2024
14.	(ऋण कोड संख्या-14100002133), (करनाल-शाखा), प्रखर गंभीर (कर्जदार)/अनुराधा गंभीर (सह-कर्जदार)	फ्लोर नं. ओ/बी-एफ एफ 69, ब्लॉक ओ एनए सी एच डी लाइफ स्टाइल फ्लोर्स सी एच डी लाइफ स्टाइल फ्लोर्स सी एच डी सिटी कमल हरियाणा भारत 132001	28/08/2023 रु. 1285306/- (रुपये बारह लाख पचासी हजार तीन सौ छह मात्र) के लिए	06-02-2024
15.	(ऋण कोड संख्या–14100004991), (करनाल– शाखा), राजेंद्र आर (कर्जदार) / रेशमा देवी (सह–कर्जदार)	खेवट नंबर 356, खतौनी नंबर 391 एनए विकास नगर, फूस गढ़ रोड, करनाल विकास नगर, फूस गढ़ रोड, कमल शिव मंदिर के पास करनाल हरियाणा भारत 132001	22/02/2022 रु. 1267067/- (रुपये बारह लाख सड़सठ हजार सड़सठ मात्र) के लिए	06-02-2024
16.	(ऋण कोड संख्या–14100004119), (करनाल– शाखा), सुरेंद्र कुमार (कर्जदार) / रीना देवी (सह–कर्जदार)	खेवट नंबर 618 नजदीक रामलीला ग्राउंड ह्योंटा तहसील पूंडरी जिला कैथल कैथल हरियाणा 136044	27/10/2023 रु. 1215979/– (रुपये बारह लाख पन्द्रह हजार नौ सौ उन्यासी मात्र) के लिए	07-02-202-
17.	(ऋण कोड संख्या-14100006263), (करनाल-शाखा), धर्मबीर (कर्जदार) / बीरमती (सह-कर्जदार)	वी पी ओ बड़सीकरी, बालू रोड एनए आवासीय घर भवन सरकारी गर्ल्स स्कूल के पास आवासीय घर भवन डिफॉल्ट हरियाणा भारत 136027	30/07/2019 रु. 1248911/- (रुपये बारह लाख अड़तालीस हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) के लिए	06-02-2024
18.	(ऋण कोड संख्या–एम0171516), (करनाल– शाखा), सुरेश कुमार (कर्जदार)/इंद्रो (सह–कर्जदार)	खतौनी नंबर 233 मिन खेवट नंबर 148 मिन मुरब्बा नंबर 4 शिव कॉलोनी, कैथल 136027	08/11/2023 रु. 1245730/- (रुपये बारह लाख पैंतालीस हजार सात सौ तीस मात्र) के लिए	07-02-2024
19.	(ऋण कोड संख्या-14100003658), (करनाल- शाखा), राजन कुमार (कर्जदार) / रीता (सह-कर्जदार)	खसरा नंबर 2250 रकबा सोनीपत पट्टी मुसलमानन अंदर हदूद नगर परिषद शिव कॉलोनी सोनीपत हरियाणा 131001	27/12/2018 रु. 1076289/- (रुपये दस लाख छिहत्तर हजार दो सौ नवासी मात्र) के लिए	05-02-202
20.	(ऋण कोड संख्या-29200001340), (यमुनानगर-शाखा), बेरेंदर कुमार (कर्जदार) / अमरीकन पत्नी वीरेंद्र कुमार (सह-कर्जदार)	खसरा नंबर 6//21 एनए मौजा गढ़ी गुजरान मौजा गढ़ी गुजरान सहारनपुर रोड से गढ़ी गुजरान डिफॉल्ट हरियाणा भारत 135001 पर प्लॉट का हिस्सा	27/10/2023रु. 1539014/- (रुपये पन्द्रह लाख उनतालीस हजार चौदह मात्र) के लिए	05-02-202
21.	(ऋण कोड संख्या-14100004716), (करनाल-शाखा), बलवान सिंह (कर्जदार) / सूबा सिंह (सह-कर्जदार)	ग्राम पाल, खेवट नंबर 563, एनए तहसील पुंडरी, मुरबा नंबर 144 तहसील पुंडरी, मुरबा नंबर 144 बाबा बिशन पुरी मंदिर के पास डिफॉल्ट हरियाणा भारत 136044	27/10/2023 रु. 1738619/- (रुपये सत्रह लाख अड़तीस हजार छह सौ उन्नीस मात्र) के लिए	07-02-2024
22.	(ऋण कोड संख्या–29200001011), (यमुनानगर– शाखा), नितिन राजपाल (कर्जदार) / रेनू बाला (सह–कर्जदार)	प्लॉट संख्या- 4/77/1/1, खेवट नंबर-18 एनए मौजा फर्कपुर, नंदा कॉलोनी मौजा फर्कपुर, नंदा कॉलोनी फर्कपुर चौकी के पास डिफॉल्ट हरियाणा भारत 135001	(रुपये दस लाख छब्बीस हजार	05-02-202
23.	(ऋण कोड संख्या-29200000631), (यमुनानगर- शाखा), अमरीक सिंह (कर्जदार) / सतपाल सिंह (सह-कर्जदार)	खसरा नंबर 18//19, प्लॉट नंबर- 1-बी एनए अमर विहार के पास यमुना विहार, अमर विहार के पास यमुना विहार, हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास डिफॉल्ट हरियाणा भारत 135003	21/01/2020 रु. 985045/- (रुपये नौ लाख पचासी हजार पैंतालीस मात्र) के लिए	07-02-202
24.	(ऋण कोड संख्या-29200001656), (यमुनानगर- शाखा), रचना (कर्जदार) / मोहन लाल (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर-55 और 56, पीपीआईडी- 237सी117यू261, ख नंबर एनए 291, गोबिंदपुरा, त्यागी गार्डन 291, गोबिंदपुरा, त्यागी गार्डन कलकत्ता नर्सरी के पास डिफॉल्ट हरियाणा भारत 135001	27/10/2023 रु. 1498141/- (रुपये चौदह लाख अञ्चनबे हजार एक सौ इकतालीस मात्र) के लिए	05-02-2024
25.	(ऋण कोड संख्या-14100004993), (करनाल- शाखा), अमित (कर्जदार) / प्रभजोत कौर (सह-कर्जदार)	खेवट नंबर 83, गांव सिसला सिस्मोर एनए तहसील कैथल, कैथल, करनाल तहसील कैथल, कैथल, करनाल पशु अस्पताल के पास डिफॉल्ट हरियाणा भारत 136044	27/10/2023 रु. 1503448/- (रुपये पन्द्रह लाख तीन हजार चार सौ अड़तालीस मात्र) के लिए	07-02-2024
26.	(ऋण कोड संख्या-14100001614), (करनाल-शाखा), रणधीर सिंह (कर्जदार) / गुरमितो देवी जी (सह-कर्जदार)	खेवट नंबर 360, खतौनी नंबर 538 एनए जिला कैथल, वी.पी.ओ. रेहरा, जिला कैथल, वी.पी.ओ. रेहरा, हरियाणा, डिफॉल्ट हरियाणा भारत 136044	27/10/2023 रु. 1438530/- (रुपये चौदह लाख अड़तीस हजार पांच सौ तीस मात्र) के लिए	07-02-2024
27.	(ऋण कोड संख्या-14100005338), (करनाल-शाखा), महावीर एम (कर्जदार) / संतोष एस (सह-कर्जदार)	वाका मोजा किच्छाना, खेवट नंबर 300 एनए खतौनी नंबर 453 तहसील राजौंद खतौनी नंबर 453 तहसील राजौंद कैथल, कैथल हरियाणा भारत 136027	28/08/2023 रु. 861974/- (रुपये आठ लाख इकसठ हजार नौ सौ चौहत्तर मात्र) के लिए	07-02-2024
28.	(ऋण कोड संख्या-14100004874), (करनाल-शाखा), संजीव कुमार (कर्जदार) / श्रवण कुमार (सह-कर्जदार)	गांव बता तेह कलायत कैथल, एनए खेवट नंबर 830, खतौनी नंबर 1048 खेवट नंबर 830, खतौनी नंबर 1048 राजपुरी वली मंदिर के पास डिफॉल्ट हरियाणा भारत 136117	29/05/2023 रु. 855531/- (रुपये आठ लाख पचपन हजार पांच सौ इकतीस मात्र) के लिए	06-02-2024
29.	(ऋण कोड संख्या-2520000033), (हिसार- शाखा), संदीप (कर्जदार)	खसरा नंबर 92/722/2 (4-7), अमन नगर, एनए मीरजापुर रोड, हिसार, मीरजापुर रोड, हिसार। प्रोप. आईडीः 93c431 u634 हिसार हरियाणा भारत 125001	(रुपये सात लाख एक हजार तीन सौ तिहत्तर मात्र) के लिए	07-02-2024
30.	(ऋण कोड संख्या-25200000302), (हिसार- शाखा), अमर पाल (कर्जदार)	12 क्वाटर, एनए निकट धानी किशन दत्त, निकट धानी किशन दत्त, तहसील जिला हिसार, हिसार हरियाणा भारत 125001	24/08/2021 रु. 470570/- (रुपये चार लाख सत्तर हजार पांच सौ सत्तर मात्र) के लिए	07-02-202

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड निगमित कार्यालय : 11वां तल, नॉर्थ साइड, और–टेक पार्क, निरलॉन नॉलेज पार्क,

ReLI∧NCE ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव पूर्व, मुंबई-400063

Asset Reconstruction सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

रहे हैं, अतएव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 30.10.2014 को इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से निम्नलिखित उधारकर्ताओं की वित्तीय संपत्तियों को उनके सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित के साथ–साथ सभी अंतर्निहित प्रतिभृति हितों के साथ आरएआरसी 068 ट्रस्ट के ट्रस्टी रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में सौंप दिया है। उक्त एसाइमेंट के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचनायें दिनांक 28.12.2023 पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी थीं, जिनमें उधारकर्ताओं से सूचना की तिथि से 60 दिनों की एकावधि के अंदर उक्त सूचनाओं में उल्लिखित संपूर्ण बकाया राशि का राशि पर नियत भावी ब्याज के साथ प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। हालाँकि, चूंकि नीचे उल्लिखित कुछ पक्षों को मांग सूचनायें नहीं भेजी जा सकीं, अतएव अब उन सचनाओं को सचना प्रेषण सेवा के वैकल्पिक माध्यम से उधारकर्ताओं को भेजा जा रहा है।

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं ने इंडियन ओवरसीज बैंक से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं। चुंकि उधारकर्ता वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल

क्र. सं.	उधारकर्ता / गारंटरों / बंधककर्ताओं इत्यादि के नाम एवं पते	बकाया राशि (रु. में)
3.	मैसर्स पाल टिंबर प्रोपरायटर, पता : छचरौली मार्ग, चूना भट्टी के समीप, जगाधरी, जनपद—यमुना नगर—135003 श्री ओम पाल पुत्र श्री दया राम (प्रोपरायटर), पता : पुत्र श्री दया राम : सी—2, 2465/46, विजय नगर कॉलोनी, जगाधरी, जनपद यमुना नगर — 135003 श्री दया राम पुत्र श्री दाता राम (गारंटर एवं बंधककर्ता), पता : सी—2, 2465/46, विजय नगर कॉलोनी, जगाधरी, जनपद यमुना नगर — 135003 श्री विक्रम सिंह (गारंटर एवं बंधककर्ता), पता : सी—2/1222/13, गंगा नगर कॉलोनी, जगाधरी, जनपद यमुना नगर — 135003	(रुपये अट्ठानबे लाख इक्यानबे हजार एक सौ ग्यारह एवं तीन पैसे मात्र) 30 / 11 / 2023 के अनुसार, वसूलीकरण की तिथि तक राशि पर 12.10% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज के साथ, इस सूचना की तिथि से साठ (60) दिनों की एकावधि के अंदर।

प्रतिभत चल / अचल संपत्तियों के विवरण :— प्राथमिक प्रतिभृति : छचरौली रोड, चूना भट्टी के समीप, जगाधरी, जिला—यमुना नगर — 135003 के पते स्थित मैसर्स पाल टिम्बर के बही ऋणों का दृष्टिबंधन।

संपार्श्विक प्रतिभति :- 1) मकान नंबर सी-2/2465/46 माप 10क-16एम में से 62/3 मरला जो 13/432वें हिस्से के रूप में खेवट नंबर

835 खतौनी नंबर 1050 खसरा नंबर 83 / /29 / 1 (9-6), 30 / 1(1-10) में समाविष्ट, मौजा जगाधरी, एचबी नंबर 400, 200 वर्ग गज

तहसील–जगाधरी, जिला यमुनानगर में स्थित, बिक्री विलेख संख्या 1816 दिनांक 17.06.1997 के तहत श्री दया राम पुत्र दाता राम के स्वामित में, निम्नानुसार सीमाबद्ध है :– उत्तर– दूसरों की संपत्ति, दक्षिण– रास्ता, पूर्व– श्री शिव कुमार की संपत्ति, पश्चिम– श्री राकेश कुमार की संपत्ति 2) संपत्ति / प्लॉट संख्या सी–2/1222/13 माप 00 कनाल 09 मरला (270 वर्ग गज), कुल भूमि माप 07के–04एम में से, खेवट खतौनी संख्य 820 / 1039 में समाविष्ट, खसरा संख्या 46 / / 21 / 2 (7—4) धारक, 270 वर्ग गज, मौजा जगाधरी, एचबी नंबर 400, तहसील — जगाधरी, जिल यमुनानगर में स्थित, बिक्री विलेख संख्या 8980 दिनांक 29.03.2000 के तहत श्री विक्रम सिंह राणा पुत्र साधु राम के नाम पर पंजीकृत, इस प्रका सीमाबद्ध :- उत्तर- दूसरे की संपत्ति, दक्षिण- दूसरे की संपत्ति, पूर्व- सड़क, पश्चिम- श्री बृजभूषण लाल की संपत्ति। यदि **60 दिनों** की अवधि के अंदर उपरोक्त संपूर्ण बकाया राशि का प्रतिभूगतान करने में विफल होते हैं तो अधोहस्ताक्षरकर्ता सरफांएसि अधिनियम वे

प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों को प्रवर्तित करने के लिये बाध्य होंगे। कृपया इस बिंदू पर ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आपको यहां इसमें ऊपर संदर्भित, किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा क्रय-विक्रय करने अथवा हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। स्थान : यमुना नगर, हरियाणा दिनांक : 10-02-2024 प्राधिकृत अधिकारी

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाडनेंस लिमिटेड (पूर्व की देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) सीआईएन : L65910MH1984PLC032639



कर्जदार(शें)/जमानती(धों) के नाम

विवरण निम्नानुसार हैं :

पंजीकृत कार्यालयः चुनिट नंबर 601, 6ठी भौजल, पीगमल अभिती बिल्डिंग, पीरामल अगस्य कॉरपोरेट पार्क, कमानी जंबकान, फायर रटेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कर्ला (पश्चिम) मुंबई-400070, दूरभाष : +91 22 3802 4000 शाखा कार्यालयः एससीओ 16-17, दूसरी मंजिल, फीरोज गांधी मार्केट, सामने लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, लुधियाना-141001

मांग सूचना की तिथि तथा राशि | कब्जा करने

कब्जा सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8-(1) तथा परिशिष्ट IV के अनुसार अचल सम्पत्ति हेत्

जैसा कि, विज्ञीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्जन अधिनिधम, 2002 के अंतर्गत पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिपिटेड) के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रचर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी की मांग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारक (कों)/ गारन्टर (रों) उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विकल रहे, अतः एतदहारा ऋणधारक, गारन्टराँ तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्चन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पटित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहरताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋगधारकों तथा आप जनता को एतदहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पन्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर ब्याज के साथ नीचे वर्णित राशि के लिए पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉपॉरेशन लिमिटेड) के चार्ज के अधीन होगा।

प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण

稅				की तिथि
1.	(ऋण कोड संख्या-29200001124), (यमुनानगर-शाखा), विक्रम सिंह (कर्जदार) / पुष्पा वर्मा (सह-कर्जदार)	खसरा नंबर-113/01, 113/2, 113/03 एनए दादूपुर गोविंदपुर प्राथमिक विद्यालय के पास दादुपुर गोविंदपुर प्राथमिक विद्यालय के पास हरिहार उत्तराखंड भारत 249403	28/08/2023 रु. 3738966/- (रुपये सैतीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ छियासट मात्र) के लिए	06-02-2024
2.	(ऋण कोड संख्या-एम०११४८५१), (सहारनपुर- शाखा), विकात कुमार (कजेंदार)/अनु राघा। (सह-कजेंदार)	00 00 प्लॉट नंबर-229ए, खसरा नंबर-409, वाके दर मिलकाना स्वाद बैंकन दर आबादी उत्तम विहार कॉलोनी वाके दर मिलकना स्वाद उत्तम विहार कॉलोनी सहारनपुर 247001	17/08/2023 रु. 3142720/- (रुपये इकतीस लाख बयालीस हजार सात सौ बीस मात्र) के लिए	06-02-2024
3.	(ऋण कोड संख्या-09700007536), (वेहरादून-शाखा), मोहम्मद जैद रफी अंसारी (कर्जदार)/ (सह-कर्जदार)	खसरा नंबर 653 ख एनए मौजा सभावाला परगना मौजा सभावाला परगना पछवादून विकासनगर देहरादून उत्तराखंड भारत 248001	23/08/2021 रु. 2931371/- (रुपये उनतीस लाख इकतीस हजार तीन सौ इकहत्तर मात्र) के लिए	05-02-2024
4.	(ऋण कोड संख्या-28600002217), (हरिद्वार-शाखा), राज शर्मा (कर्जदार) / रेखा शर्मा (सह-कर्जदार)	मकान नंबर- 19, खसरा नंबर-793 एनए ग्राम- राथवाला, औरावली आश्रम के पास, ग्राम- राथवाला, औरावली आश्रम के पास, ऋषिकेश, हरिहार उत्तराखंड भारत 249201	27/10/2023 रु. 4723914/- (रुपये सैतालीस लाख तेईस हजार मौ सौ चौदह मात्र) के लिए	06-02-2024
5.	(ऋण कोड संख्या-09700005692), (देहरादृन-शाखा), आशीध कुमार (कर्जदार) / मोनिका रेखी (सह-कर्जदार)	खाता नंबर 577 मिन खाता नंबर 177 एनए मीजा शेरपुर परगना पछवादन मीजा शेरपुर परगना पछवादन तहसील विकासनगर देहरादून उत्तराखंड भारत 248001	30/04/2019 रु. 2521715/- (रुपये पच्चीस लाख इक्कीस हजार सात सी पंद्रह मात्र) के लिए	05-02-2024
6.	(ऋण कोड संख्या-०१७००००३८७६), (देहरादून-शाखा), राहुल सोनी (कर्जदार) / अमर नाथ सोनी (सह-कर्जदार)	दुकान नंबर 262/101/1 एनए कांवली रोड (कांवाली गांव- आई) कांवली रोड (कांवाली गांव-आई) देहरादून उत्तराखंड भारत 248001	29/05/2023 रु. 1915680/- (रुपये उन्मीस लाख पन्द्रह हजार छः सौ अस्सी मात्र) के लिए	06-02-2024
7.	(ऋण कोड संख्या-28600002307), (हरिद्वार-शाखा), देवेन्द्र सिंह कटारिया (कर्जदार)/सस्ति। कटारिया (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर 8,9,10, खसरा नंबर 2413, एनएकृष्ण नगर पीएच-1, गांव- सलेमपुर कृष्णा नगर पीएच-1, गांव- सलेमपुर महदूद- 2 परगना- रूड़की, हरिद्वार उत्तराखंड भारत 249402	28/08/2019 रु. 1867681/- (रुपये अड्डारह लाख सहस्रट हजार छह सी इक्यासी मात्र) के लिए	06-02-2024
В.	(ऋण कोड संख्या-09700009225), (देहरादून-शाखा), रकम सिंह (कर्जदार) / सीमा सिंह (सह-कर्जदार)	खसरा नं. 383 क मिन एनए मौजा डांडा लुखोंड मौजा डांडा लुखोंड परगना परवा दून देहरादून उत्तराखंड भारत 248001	27/10/2023 रु. 2473956/- (रुपये चौबीस लाख तिहत्तर हजार नौ सौ छप्पन मात्र) के लिए	06-02-2024
9.	(ऋण कोड संख्या-29200000888), (यमुनानगर- शाखा), राजेश पुत्र भदन पाल (कर्जदार) / सरिता (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर-13 और 14 का हिस्सा, खसरा नंबर 429एम एनए रविदास मंदिर के पास ग्राम नाजिरपुरा रविदास मंदिर के पास ग्राम नाजिरपुरा दार आबादी आकाश एन्क्लेव सहारनपुर उत्तर प्रदेश भारत 247001	25/01/2019 रु. 1538525/- (रुपये पन्द्रह लाख अड़तीस हजार पांच सी पच्चीस मात्र) के लिए	06-02-2024
0.	(ऋण कोड संख्या-09700004175), (देहरादून-शाखा), राथ सिंह (कर्जदार) / शिव सिंह (सह-कर्जदार)	खासरा नंबर 1353 एनए भीजा ईस्टहोप टाउन भीजा ईस्टहोप टाउन परगना पछबादून विकासनगर देहरादून उत्तराखंड भारत 248001	29/04/2023 रु. 1515583/- (रुपये पन्द्रह लाख पन्द्रह हजार पांच सौ तिरासी मात्र) के लिए	05-02-2024
11.	(ऋण कोड संख्या-29200001092), (यमुनानगर- शाखा), राजेश कुमार (कर्जदार) / अमिता पत्नी राजेश (सह-कर्जदार)	प्लॉट नंबर 22,21 का उत्तरी भाग, खसरा नंबर 427,438 रविदास मंदिर के पास, खसरा नंबर 427,438 रविदास मंदिर के पास, शिव विहार कॉलोनी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश भारत 247001	30/07/2019 रु. 1464265/- (रुपये चौदह लाख चीसठ हजार दो सी पैंसठ मात्र) के लिए	06-02-2024
12.	(ऋण कोड संख्या-09700008745), (देहरादृन-शाखा), आस्था बंगवाल (कर्जदार)∕ (सह-कर्जदार)	खासरा नंबर 915 मिन खाता नंबर 2606 एनए मौजा देहराखास मौजा देहराखास परगना सेंट्रलडून देहरादून उत्तराखंड भारत 248001	26/06/2023 रु. 1408383/- (रुपये चौदह लाख आठ हजार तीन सौ तिरासी मात्र) के लिए	06-02-2024
13.	(ऋण कोड संख्या-286000000137), (हरिहार-शाखा), सुधीर आर मालाकार (कर्जदार) / ममता पत्नी सुधीर (सह-कर्जदार)		21/01/2020 रु. 1425655/- (रुपये चौदह लाख पच्चीस हजार छह सौ पचपन मात्र) के लिए	06-02-2024
4.	(ऋण कोड संख्या-09700004014), (देहरादून-शाखा), सुनील कुमार (कर्जदार) / पण्णू राम (सह-कर्जदार)	खसरा नंबर 6482 स्थित मीजा बाबू गढ़ परगना पछवा दून देहरादून उत्तराखंड 248001	18/12/2021 रु. 1325296/- (रुपये तेरह लाख पञ्चीस हजार दो सी छिधानचे मात्र) के लिए	05-02-2024
15.	(ऋण कोड संख्या-29200000609), (यमुनानगर- शाखा), मोहित। (कर्जदार) / स्थाति (सह-कर्जदार)	खासरा नंबर-500 एम, पंचायत घर एनए ग्राम जादूदा जट्ट ग्राम जादूदा जट सहारनपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश भारत 247001	29/04/2023 रु. 1265939/- (रुपये बारह लाख पैसठ हजार नौ सौ उनवालीस मात्र) के लिए	07-02-2024
16.	(ऋण कोड संख्या-29200001279), (थमुनानगर- शाखा), मोहम्मद शाह आलम खान (कर्जदार) / आयशा खान (सह-कर्जदार)	मकान नंबर-5 खसरा नंबर-531 एनए मंडी समिति चिलकाना रोड मंडी समिति चिलकाना रोड माल मस्जिद के पास सहारनपुर उत्तर प्रदेश भारत 247001	28/08/2019 रु. 1190198/- (रुपये म्यारह लाख नच्चे हजार एक सौ अद्वानचे मात्र) के लिए	07-02-2024

(ऋण कोड संख्या-28600002473), खासरा नंबर 111 एनए मौजा गौरधनपुर तहसील लक्सर मौजा

18. (ऋण कोड संख्या-09700008171), खसरा 556 क एनए भीजा फतेहपुर भीजा फतेहपुर विकास

(ऋण कोड संख्या-28600002312), खसरा नंबर ४९ एनए ग्राम जिथापोता ओ बी सी बैंक के पास

(हरिद्वार-शाखा), शीशकरण पुत्र रामदिया ग्राम जिथापोता ओ वी सी बैंक के पास परगमा ज्वालापुर

(ऋण कोड संख्या-28600001309), खसरा नंबर 546 एनए ग्राम भंगेरी महावतपुर का हिस्सा ग्राम

(हरिद्वार-शाखा), संजीय कुमार पथरा भंगेरी महावतपुर परगना रूड़की हरिद्वार उत्तराखंड भारत

(ऋण कोड संख्या-एम००७७४३१०), ०००० ०००० एमपीएल नंबर ७/७८०एच, खसरा नंबर

(ऋण कोड संख्या-एम००९१७२६), बिल्डिंग वियरिंग एमपीएल नं. एमएम/135/130 पर निर्मित

(समुनानगर- शाखा), अध्दुल रहमान निजी प्लॉट नंबर 21 खसरा नंबर 400 और 404 का हिस्सा

(ऋण कोष्ठ संख्या-०९७००००७११६०), खसरा नंबर १३५३ एनए मौजा ईस्ट होप टाउन में स्थित मौजा

(देहरादून-शास्त्रा), राग्र सिंह (कर्जदार) / ईस्ट होप टाउन परगना पचवा दन देहरादन उत्तराखंड

(ऋण कोड संख्या-09700008075), खासरा नंबर 950 मीजा सभावाला परगना पखवादन देहरादन

(ऋण कोड संख्या-28600002249). प्लॉट नंबर-54, खसरा नंबर-1828, एनए अपना घर गांव-

(हरिद्वार- आखा), गीरव कमार (कर्जादार) | अनेकी हेतमपुर, अपना घर गांव-अनेकी हेतमपुर, परगना

(ऋण कोड संख्या-०९७७००० १८४३), खसरा नंबर-७९मिन एनए मौजा पंडितवारी मौजा पंडितवारी

(ऋण कोड संख्या-286000000555), प्लॉट मंबर 108, खसरा मंबर 2020 एमए कृष्णा नगर

(कर्जदार) / सरोज पत्नी बिजेंदर ग्राम सलेमपुर महदूद २ ज्वालापुर हरिहार उत्तराखंड भारत

जसविंदर सिंह परगना सेंट्रलड्न देहरादुन उत्तराखंड भारत 248001 के हिस्से

विशास्त्रा पत्नी गीरव कमार रुड़की, हरिद्वार उत्तराखंड भारत 249402

हरभजन सिंह पर निर्माण

248001 में स्थित है

(देहरादून-शाखा), शमशेर अली नगर देहरादून उत्तराखंड भारत 248001

(कर्जदार) / माथा देवी (सह-कर्जदार) | हरिद्वार हरिद्वार उत्तराखंड भारत 249407

(सहारनपुर- शास्त्रा), सलमान सलमान 689एमआई सहारनपुर 247001

(कर्जदार) / शाहनाज ए (सह-कर्जदार) ग्राम मानकमक, परगना, 247001

(देहरादून-शाखा), सुशीला सकलानी उत्तराखंड 248001

(कर्जदार) / मदन मोहन सकलानी

प्रदेश भारत 247663

रीना पत्नी प्रीतम सिंह (सह-कजंदार)

(कर्जदार) / सीमा एस (सह-कर्जदार)

(कर्जदार) / सीता एस (सह-कर्जदार) 247666

(कर्जदार) / मेहराज मेहराज

शिव सिंह (सह-कर्जदार)

(सह-कर्जदार)

सह-कर्जदार)

कर्जदार)

सह-कर्जदार)

(सह-कर्जदार)

स्थान : उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश,

(सह-कर्जदार)

(हरिद्वार-शास्त्रा), प्रीतम सिंह (कर्जदार) 🗸 गौरधनपुर तहसील लक्सर परगना गौरधनपुर हरिद्वार उत्तर | (रुपये दस लाख चौहत्तर हजार चार

सौ अस्सी मात्र) के लिए

29/04/2023 で、868745/-

(रुपये आढ लाख अडसट हजार

सात सी पैतालीस मात्र) के लिए

30/04/2019 年, 871932/-

(रुपये आठ लाख इकहत्तर हजार नी

सी बसीस मात्र) के लिए

30/04/2019 T. 817715/-

रुपये आठ लाख संत्रह हजार सात

सौ पंद्रह मात्र) के लिए

17/08/2023 T. 642524/-

(रुपये छह लाख बयालीस हजार

पांच सौ चौबीस मात्र) के लिए

27/03/2023 T. 554259/-

(रुपये पांच लाख चौवन हजार दो

सी उनसठ मात्र) के लिए

29/04/2023 T. 508022/-

(रुपये पांच लाख आठ हजार बाईस

मात्र) के लिए

30/01/2023 で、551205/-

(रुपये पांच लाख इक्यावन हजार दी

सी पांच मात्र) के लिए

27/10/2023 で、569758/-

(रुपये पांच लाख उनहसर हजार

सात सौ अझयन मात्र) के लिए

26/06/2023 T. 220912/-

(रुपये दो लाख बीस हजार नौ सौ

बारह मात्र) के लिए

27/03/2023 万. 226749/-

सौ उनचास मात्र) के लिए

05-02-2024

06-02-2024

06-02-2024

06-02-2024

06-02-2024

05-02-2024

05-02-2024

06-02-2024

06-02-2024

06-02-2024

(अधिकृत प्राधिकारी)

(सह-कर्जदार)

स्थान : हरियाणा

तिथि : 10.02.2024

(ऋण कोड संख्या-31200000057),

(कर्जदार) / मनदीप पंवार

(सोनीपत- शाखा), सुशीला देवी वार्ड नंबर-29, अंबेडकर कॉलोनी, सोनीपत वार्ड

संपर्क कर सकते हैं या 011-41406149-52 पर कॉल कर सकते हैं।

स्थानः दिल्ली दिनांकः 09.02.2024

कंपनी सचिव

05-02-2024

(अधिकृत प्राधिकारी

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटे

किला नंबर-50/18/2/9(0-4), गली नंबर-1 एनए | 27/10/2023 रु. 2410007/-

नंबर-29. अंबेडकर कॉलोनी. सोनीपत वाका मोजा सात मात्र) के लिए

गढी भवन डिफॉल्ट हरियाणा भारत 131001

तिथि : 10.02.2024 पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(हरिहार-शाखा), विजेंदर पुत्र मांगेशम कॉलोनी प्रापना कडकी कथ्या नगर कॉलोनी प्रापना कडकी (रुपये दो लाख खब्बीस हजार सात

www.readwhere.com

Hiren Ramkrishna Kulkarni

FINANCIAL EXPRESS

केनरा बैंक Canara Bank सिंडिकेट Syndicate

Goregaon East Branch, "Takshashila" Plot No.1, Samant Estate, Near Sai Vej Hotel, Goregaon East, Mumbai - 400063. Phone: 26862895 / 26860628. Email: cb0205@canarabank.com

Ref:CB:GORE(E):HL-160001520060:Demand Notice:2023 M/s. Tanisha Kaustubh Sapre, Co. Kaustubh D. Sapre, 58 A 10, Himgiri CHS Nnp.

DEMAND NOTICE [SECTION 13(2)] TO BORROWER/ GUARANTOR/MORTGAGOR

Zone 2, Goregaon East, Mumbai - 400065. Sub: Notice issued under Section 13(2) of the Securitisation & Reconstruction

of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002. The undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank, Goregaon East Branch (hereinafter referred to as "the secured creditor"), appointed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, (hereinafter referred as the "Act") do hereby issue this notice to you

That Ms. Tanisha Kaustubh Sapre (hereinafter referred to as "the Borrower"1) has availed credit facility / facilities stated in the Schedule A hereunder and has entered into the security agreement/s in favour of the secured creditor. While availing the said financial assistance, you have expressly undertaken to repay the loan amount/s in accordance with the terms and conditions of the above mentioned agreements.

However, from Nov 2023, the operation and conduct of the said financial assistance / credit facilities have become irregular. The books of account maintained by the secured assets shows that the liability of the Borrower towards the secured creditor as on date amounts to Rs. 18,84,022.42 (Rupees Eighteen Lakhs Eighty Four Thousand Twenty Two Only), the details of which together with future interest rate are stated in Schedule C hereunder, It is further stated that the Borrower/Guarantor having failed to keep up with the terms of the above said agreement in clearing the dues of the secured creditor within the time given, and have been evasive in settling the dues. The operation and conduct of the above said financial assistance / credit facility/ies having come to a standstill and as a consequence of the default committed in repayment of principal debt/ installment and interest thereon, the secured creditor was constrained to classify the debt as Non Performing Asset (NPA) as on 28th Dec 2023 in accordance with the directives/guidelines relating to asset classification issued by the

The secured creditor through this notice brings to your attention that the Borrower has failed and neglected to repay the said dues/ outstanding liabilities and hence hereby demand you under Section 13(2) of the Act, by issuing this notice to discharge in ful the liabilities of the Borrower as stated in Schedule C hereunder to the secured creditor within 60 days from the date of receipt of this notice. Further, it is brought to your notice that you are also liable to pay future interest at the rate of 9.30 % per annum together with all costs, charges, expenses and incidental expenses with respect to the proceedings undertaken by the secured creditor in recovering its dues. Please take note of the fact that if you fail to repay to the secured creditor the aforesaid sum of Rs. 18.84.022.42 (Rupees eighteen lakhs eighty four thousand twenty two only) together with further interest and incidental expenses and costs as stated above in terms of this notice under Section 13(2) of the Act, the secured creditor will exercise all or any of the rights detailed under sub-section (4)(a) and (b) of Section 13, the extract of which is given here below to convey the seriousness of this issue: 13(4)- In case the Borrower/Guarantor fails to discharge liability in full within the period

specified in sub-section (2), the secured creditor may take recourse to one or more of the following measures to recover his secured debt, namely; (a) Take possession of the secured assets of the Borrower/Guarantor including the right to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset; (b) Take over the management of the business of the Borrower including the right to

transfer by way of lease, assignment or sale for realizing the secured asset: Provided that the right to transfer by way of lease, assignment or sale shall be exercised only where the substantial part of the business of the Borrower is held as Provided further that where the management of whole of the business or part of the business is severable, the secured creditor shall take over the management of such

business of the borrower which is relatable to the security for the debt; and under other applicable provisions of the said Act. Your attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in

respect of time available, to redeem the secured assets You are also put on notice that in terms of section 13(13) the Borrower/Guarantor shall not transfer by way of sale, lease or otherwise the said secured assets detailed in Schedule B hereunder without obtaining written consent of the secured creditor. It is further brought to your notice that any contravention of this statutory injunction/ restraint, as provided under the said Act, is an offence and if for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realized shall be deposited with the secured creditor. In this regard you shall have to render proper accounts of such realization / income. This notice of Demand is without prejudice to and shall not be construed as waiver of

any other rights or remedies which the secured creditor may have including further demands for the sums found due and payable by you. This is without prejudice to any other rights available to the secured creditor under the Act and/or any other law in force.

Please comply with the demand under this notice and avoid all unpleasantness. In for all costs and consequence.

> Thanking you Sd/ Yours Faithfully, Authorized Officer

> > Tanisha Kaustubh

Sapre

SCHEDULE -A [Details of the credit facility/ies availed by the Borrower]

Nature of Date of Loan No Amount Loan/Limit Sanction 160001520060 Housing Loan 29.03.2023 Rs. 18,84,022.42

164003284391 Home Loan Secure 29.03.2023 Rs. 1.09.412.40

SI

No

S. No.

SCHEDULE -B [Details of security assets ³]							
SI No	Movable	Name of Title holder					
	Immovable	Name of Title holder					

2, Goregaon East, Mumbai - 400065. SCHEDULE -C [Details of liability as on date]

EMT of Flat 58 A 10 Himgiri CHS. NNP Zone

SI	Loan No	Nature Of	Liability With	Rate of	
No		Loan/ Limit	Interest as On Date	Interest	
1.	160001520060	Housing Loan	Rs. 18,84,022.42	9.30	
	164003284391	Home Loan Secure	Rs. 1,09,412.40	9.35	

DCM LIMITED

Regd. Office: Unit Nos. 2050 to 2052, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006 CIN- L74899DL1889PLC000004 Ph: 011-41539170 Email Id: investors@dcm.in Website: www.dcm.in Notice of Postal Ballot

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110

and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, ("the Rules"). General Circular Nos. 14/ 2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/ 2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, ("SEBI Listing Regulations") and any other applicable laws, rules, circulars, notifications and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the approval of the members of the Company (as on the "Cut-off Date") ("Members" or "Equity Shareholders"), is sought via postal ballot only by way of voting through electronic means ("remote e-voting"/"e-voting") for following Ordinary Resolution:

Approval for entering into material related party transaction(s) with Pureath Infrastructure Limited.

Description of the Ordinary Resolution

Pursuant to the MCA circulars, the Company has completed the dispatch of electronic copies of the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on Friday, February 9, 2024, through electronic mode to those Members whose email address are

participant(s) as on Friday, February 2, 2024 ("Cut-off Date"). The said Notice is also available on the website of the Company: www.dcm.in, the relevant section of the website of BSE Limited ("BSE"); www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"): www.nseindia.com and on the website of

registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent ('RTA') /depository

National Securities Depository Limited ("NSDL"): www.evoting.nsdl.com. One equity share of the Company represents one vote. In accordance with the provisions of the MCA circulars, Members can vote only through e-voting process. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the names of the shareholders as on Friday, February 2, 2024 being the cut-off date fixed for this purpose. Further once the vote on the resolution is cast by member, he/she shall not be allowed

the Cut-off Date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. The e-voting facility will be available during the following period:

EVEN NO

folimanos.oiazbekp.epapr.in

to change it subsequently. Any person who is not a shareholder of the Company as on

LVLINIO	12/120
Commencement of e-voting period	9.00 a.m. IST on Saturday, February 10, 2024
Conclusion of e-voting period	5.00 p.m. IST on Sunday, March 10, 2024
Cut-off date for eligibility to vote	Friday, February 2, 2024
The e-voting facility will be disable	d by NSDL immediately after 5.00 n.m. IST on

Sunday, March 10, 2024. Members who have not updated their e-mail address are requested to register the

same in respect of shares held by them in electronic form with the Depository through their Depository participant and in respect of shares held in physical form by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent, MCS Share Transfer Agent Limited either by email to admin@mcsregistrars.com or by post to F-65, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi - 110 020. The Board has appointed Mrs. Pragnya Parimita Pradhan, Company Secretary in whole-

time practice, Proprietor of M/s Pragnya Pradhan & Associates, Company Secretaries, having CP No. 12030, as the Scrutinizer, to conduct the Postal Ballot/e-voting process. in a fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit her report to the Chairman or any other person authorized

by the Chairman after the completion of scrutiny of the e-voting, and the result will be announced within Two Working Days from the conclusion of e-voting i.e. on or before Tuesday, March 12, 2024, and will also be displayed on the Company's website www.dcm.in and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com), and communicated to the stock exchanges, depositories, Company's RTA.

In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com or contact Mr. Ajay Dalal, Sr. Manager or Mr. Amarjit, Sr. Manager, MCS Share Transfer

Agent Limited, F-65, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi - 110020, emailadmin@mcsregistrars.com or call on 011-41406149-52. For DCM Limited Place: Delhi Yadvinder Goyal

RAUNAQ INTERNATIONAL LIMITED (formely known as RAUNAQ EPC INTERNATIONAL LIMITED) Registered Office: 20 K.M. Mathura Road, P.O. Amar Nagar, Faridabad - 121003 (Haryana)

E-mail: info@raunagintl.com **Website**: www.raunaginternational.com CIN: L51909HR1965PLC034315

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER, 2023

(Rs. in Lakhs)

No.	PARTICULARS	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations (Net)	167.54	64.11	137.35	268.40	468.28	576.93
2.	Net profit/(Loss) for the Period before share of Profit/(Loss) of associate	(46.04)	37.24	(121.08)	(1.58)	(1.61)	(282.54)
3.	Net profit/(Loss) for the Period after share of Profit/(Loss) of associate but before Tax (before Exceptional and/ or Extraordinary Items)	(46.04)	37.24	(121.08)	(1.58)	(1.61)	(282.54)
4.	Net profit/(Loss) for the Period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(46.04)	37.24	(121.08)	(1.58)	(1.61)	(282.54)
5.	Net profit/(Loss) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(41.95)	38.17	(59.02)	0.57	16.19	(238.00)
6.	Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit/(Loss) for the Period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	(40.05)	40.07	(59.47)	6.28	15.51	(230.39)
7.	Equity Share Capital	334.32	334.32	334.32	334.32	334.32	334.32
8.	Earnings Per Share of ₹10/- each (*Not Annualised) Basic and Diluted	*(1.25)	*1.14	*(1.77)	*0.02	*0.48	(7.12)
NO	TES:	2 11					
1 7	The above is an extract of the detailed format of Quarter End	ed Unaudited Fin	ancial Results file	d with the Stock	Exchange under F	Regulation 33 of t	he SERI (Listing

1. The above is an extract of the detailed format of Quarter Ended Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Unaudited Financial Results is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.raunaqinternational.com. 2. The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on

09 February, 2024. For and on behalf of the Board of Directors

SURINDER PAUL KANWAR

(Rupees in crores)

Chairman & Managing Director

DATAMATICS GLOBAL SERVICES LIMITED

Registered Office: Knowledge Centre, Plot No. 58, Street No. 17, MIDC, Andheri (E), Mumbai -400093. CIN: L72200MH1987PLC045205, Tel. No.: - +91-22-61020000/1/2 Fax. No.: - +91-22-28343669 Website: www.datamatics.com UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

Sr.				STANI	DALONE			CONSOLIDATED				37 55	
No.	Particulars	Quarter ending		Nine Months ending Year ending		Quarter ending			Nine Months ending		Year ending		
053,5	Particulars	31-Dec-23	30-Sep-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23	r-23 31-Dec-23	-Dec-23 30-Sep-23 31-		31-Dec-23	31-Dec-23 31-Dec-22	31-Mar-23
- 5.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	177.09	176.32	189.31	541.66	520.45	733.27	369.30	376.79	372.64	1,137.18	1,042.91	1,459.19
2	Net Profit (+) / Loss (-) from ordinary	0100000	IT-VANCO.	2000000000	SHEARA		9801890	200000000000000000000000000000000000000	363854	0.472333554	23.000/305240	326.00863	200000000000000000000000000000000000000
	activities before tax	22.02	35.97	34.07	88.76	93.11	135.35	53.76	58.55	60.24	179.51	163.32	243.41
3	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax	16.74	30.02	25.24	69.87	71.26	103.13	41.41	48.94	44.99	145.00	126.88	185.34
4	Net Profit (+) / Loss (-) for the period after tax	(502,600,000	59395000	50.0000	0.52,02,909	(((((((((((((((((((0.00000	SECONDS.	527908067	5/10/68/190	500 000 000 000 000 000 000 000 000 000	77-359-552	a arsenco
	(after non controlling interest)	16.74	30.02	25.24	69.87	71.26	103.13	41.30	49.26	45.87	145.64	129.23	188.95
5	Other Comprehensive income	0.78	(0.84)	(0.98)	0.70	(5.69)	(3.74)	7.31	(0.71)	8.22	8.63	2.78	5.88
6	Total Comprehensive income for the period	17.52	29.18	24.26	70.57	65.57	99.39	48.72	48.23	53.21	153.63	129.66	191.22
7	Paid-up equity share capital	17.77	50000	2007	1000	200111	1766300	11.00	2.00	Maria	0.0000	13730	54.55
	(Face Value per share Rs.5/-)	29.48	29.48	29.48	29.48	29.48	29.48	29.48	29.48	29.48	29.48	29,48	29.48
8	Reserve (excluding Revaluation) Reserves as	9452300000 UUAAN	0.000	1000000	96.635.00	0.00072.004	192,073,01	6000,000	1000 TO 1000	10.100 F-00	5000000	54600	theory
3	per balance sheet of previous accounting year	NA	NA	NA	NA.	NA	NA.	NA	NA.	NA	NA	NA.	
9	Earnings Per Share (EPS)												
	- Basic	2.84	5.09	4.28	11.85	12.09	17.49	7.01	8.36	7.78	24.71	21,92	32.05
	- Diluted	2.84	5.09	4.28	11.85	12.09	17.49	7.01	8.36	7.78	24.71	21.92	32.05

The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 filed by the Company with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for nine months and 3rd quarter of FY 2023-24 are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on Company's website at www.datamatics.com. For Datamatics Global Services Limited

> Rahul L. Kanodia Vice Chairman & CEO

> > (₹ in Lakhs unless specified

Commitment, Reliability & Quality

Place: Mumbai

Place : Mumbai

Dated: 8 February 2024

at its meeting held on 9th February, 2024

Place: Mumbai

Company Secretary

Date: 09.02.2024

Date: February 09, 2024

Date: 09 February, 2024

ITD Cementation India Limited

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2023

Regd. Office: 9th Floor, Prima Bay, Tower - B, Gate No. 5, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai - 400072. Tel.: +91-22-6693 1600 • Fax: +91-22-6693 1627/28 • E-mail: investors.relation@itdcem.co.in • Website: www.itdcem.co.in

Consolidated Corresponding Nine months Three months Sr. 3 months ended in No. ended ended the previous year **Particulars** 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) Revenue from operations 2,01,716.12 5,46,015.17 1,32,701.66 4,732.56 2 Net Profit/(loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 10,580.17 25,266.67 3 Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 4.732.56 10.580.17 25,266,67 4 Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 7.859.59 18,462.92 3,688.34 5 Total Comprehensive Income/(loss) for the period [Comprising Profit for the period (after tax) 3,708.52 7,870.53 17,991.77 and Other Comprehensive Income (after tax)) Equity share capital 1,717.88 6 1.717.88 1,717.88 Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Audited Balance Sheet of

	the previous year	(64)	34	¥(
8	Earnings Per Share (face value of ₹1/- each) (for continuing and discontinued operations)-			No. of the Landson	
	1. Basic: (₹)	* 4.56	* 10.72	* 2.13	
	Diluted: (₹) *not annualised	* 4.56	* 10.72	* 2.13	
	Standalone information:	100	(₹ in Lakhs unless specified	
Sr.	Particulars	Three months ended	Nine months ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	
No.		31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
1	Revenue from operations	1,92,200.32	5,30,532.86	1,19,178.99	
2	Profit/(loss) before tax	10,322.13	24,761.76	4,439.99	
3	Profit/(loss) after tax	7,838.86	18,422.25	3,664.68	
4	Total comprehensive income/(loss) for the period (net of tax)	7,849.80	17,951.10	3,684.86	

 The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended 31 December 2023 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and nine months ended 31 December 2023 Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the Company's website at http://www.itdcem.co.in/investors/financial/financial-results/ For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Jayanta Basu (Managing Director) DIN No. 08291114

PUBLIC NOTICE

shares of FV Rs. 2/- (Rupees Two only) each with Folio No. H005013 of Deepak Nitrite Ltd, having its registered office at Aaditya-I, Chhani Road, Vadodara, Gujarat, 390024 registered in the name of Hiren Ramkrishna Kulkarni have been lost. Hiren Ramkrishna Kulkarni has applied to the company for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such claim with the company within 15 days of the publication of this notice.

Notice is hereby given that the following Share Certificates for 1000 Equity

Folio No.	No. of Shares	Certificate No.	Distinctive Nos. (From-To)
LICOFO42	500	2528	103553761-103554260
H005013	500	560	51284666-51285165

State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch 3rd Floor, Matrix Mall, Sector - 4, Jawahar Nagar, Jaipur (Rajasthan) -302004, E-mail: sbi.18184@sbi.co.in, Tel.: 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

Date: 10th February 2024

"Appendix – IV-A" [See Proviso to rule 8(6)] E-Auction Sale notice for sale of immovable properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6)

of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described the immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the physical possession of which have been taken by the Authorised Officer of State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.), Secured Creditor, will be e-auctioned on "As is where is", "As is what is", "whatever there is" and "without recourse" basis 29.02.2024, for recovery of Rs. 5,65,10,970.59 (Rupees Five Crore Sixty Five Lacs Ten Thousand Nine Hundred Seventy & Fifty Nine Paisa Only) inclusive of interest upto 01.01.2018 plus further interest, cost, charges & other expenses etc. due to the State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.) (Secured Creditor) from Borrower Seatel Electronics India Private Limited and Shri Pankaj Sharma S/o Shri Gopal Kishan Sharma (Director/Guarantor), Shri Neeraj Sharma S/o Shri Gopal Kishan Sharma (Director/Guarantor), Smt. Pratibha Sharma W/o Shri Pankaj Sharma (Guarantor), Shri Gopal Kishan Sharma S/o Shri Mohan Lal Sharma (Guarantor) and Smt. Hemlata Sharma

W/o Shri Gopal Kishan Sharma (Guarantor). The reserve price and earnest money will be as

per below mentioned, the latter amount to be deposited as per procedure detailed in Terms and

Condition of the Auction at the Bank's/MSTC website well before close of e-auction 1. Reserve Price Time Description of the Immovable Property 2. EMD Amount Property (1) : Residential House (Basement+Ground) Floor+First Floor) situated at Plot No. 13, Achrol House, Civil 11.00 A.M. Lines, Ajmer Road, Jaipur (Raj.) measuring as per record 242.11 Lakhs available with the bank 300 Square Yards in the name of Shri 03.30 P.M. Gopal Kishan Sharma, Smt. Hemlata Sharma and Shri Pankaj 24.22 Lakhs Sharma; Bounded by :- On the East by Other Land, On the West by Plot No 13A, On the North by Plot No. 12, On the South by Rasta, CERSAI-20000 917 2875

nterested bidder may deposit Pre-Bid EMD with MSTC before the close of e-Auction. Credit of Preold EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in MSTC's Bank account and updation of such information in the e-auction website. This may take some time as per banking process and hence bidders, in their own interest, are advised to submit the pre-bid EMD amount wel n advance to avoid any last-minute problem. ncumbrances: Not known apart from as above.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.) Secured Creditor's https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others and https://ibapi.in/sale_info_home.aspx Date: 09.02.2024

Place: Jaipur (Raj.)

(Authorised Officer)

0088 JASH ENGINEERING LIMITED

Reg. Office: 31, Sector-C. Industrial Area, Sanwer Road, Indore - 452015 (MP) India Tel: +91-731-27020143, 2721143 | Fax: +91-731-2720499 Email: info@jashindia.com | Website.: www.jashindia.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING JASH Engineering Limited ("Company") has issued a Notice dated January 16, 2024 for convening the Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of its members of the Company for

the financial year 2023-24 which is scheduled to be held on Thursday, February 15, 2024 at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Video Means ("OAVM") to transact the businesses stated in the EGM Notice. The venue of the EGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at 31, Sector-C, Sanwer Road, Industrial Area, Indore - 452015 (M.P). The Notice of the EGM ("EGM Notice") has been dispatched to the Shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with rules and regulations made thereunder and other statutory provisions, if any, to the extent applicable. This Corrigendum to EGM Notice ("Corrigendum") is being issued to give notice to amend details as mentioned herein and pursuant to the provisions of SEBI ICDR Regulations:

. In the Point D of Explanatory Statement for Item No. 1 and Item No. 2 (The price at which the allotment is proposed and basis on which the price has been arrived at) the following para should be substituted and read as under

"The Equity Shares of the Company are listed on Stock Exchange viz. National Stock Exchange of India Limited and are frequently traded in accordance with the ICDR Regulations. The Floor Price of Rs. 1527.14 (Rupees One Thousand Five Hundred Twenty-Seven and Paisa Fourteen Only) per Convertible Warrants is determined as per the pricing formula prescribed under SEBI ICDR Regulations for the Preferential Issue and is higher of the following: (a) the 90 (Ninety) trading days volume weighted average price of the Equity Shares of the

Company quoted on the NSE, preceding the Relevant Date, i.e. Rs. 1464.72 (Rupees One Thousand Four Hundred Sixty-Four and Paisa Seventy Two Only) per Equity Share; (b) the 10 (Ten) trading days volume weighted average price of the Equity Shares of the Company quoted on the NSE, preceding the Relevant Date, i.e. Rs. 1527.14 (Rupees One Thousand Five Hundred Twenty-Seven and Paisa Fourteen Only) per Equity Share.

Accordingly, the floor price in terms of Regulation 164 of the ICDR Regulation, is Rs. 1527.14 (Rupees One Thousand Five Hundred Twenty-Seven and Paisa Fourteen only) per Warrant, being higher of the above two prices.

Article 14(1)(c) of the Company requires determination of price in case of preferential issue by a registered valuer. The Company has also obtained a valuation report dated January 16, 2024, issued by FCA Payal Gada, a Chartered Accountant (IBBI Regd. No. IBBI/RV/06/2019/11170, having office at S-15, 2nd floor, Sej Plaza, Marve Road, Malad (West), Mumbai-400064, Maharashtra) to justify the Price and same is available at the website of the Company www.jashindia.com. The issue price is Rs. 1527.50/- (Rupees One Thousand Five Hundred Twenty-Seven and

Paisa Fifty Only) per Convertible Warrants the said issue price is higher than the minimum floor price of arrived at, in accordance with the provisions of Chapter V of the ICDR Regulations." . In the Point D of Explanatory Statement for Item No. 3 (The price at which the allotment is

proposed and basis on which the price has been arrived at) the following para should be substituted and read as under: "The Equity Shares of the Company are listed on Stock Exchange viz. National Stock Exchange of India Limited and are frequently traded in accordance with the ICDR

The Floor Price of Rs. 1527.14 (Rupees One Thousand Five Hundred Twenty-Seven and Paisa Fourteen Only) per Equity Share is determined as per the pricing formula prescribed under SEBHCDR Regulations for the Preferential Issue and is higher of the following: (a) the 90 (Ninety) trading days volume weighted average price of the Equity Shares of the

Thousand Four Hundred Sixty-Four and Paisa Seventy Two Only) per Equity Share; (b) the 10 (Ten) trading days volume weighted average price of the Equity Shares of the Company quoted on the NSE, preceding the Relevant Date, i.e. Rs. 1527.14 (Rupees One Thousand Five Hundred Twenty-Seven and Paisa Fourteen Only) per Equity Share. Accordingly, the floor price in terms of Regulation 164 of the ICDR Regulation, is Rs. 1527.14 (Rupees One Thousand Five Hundred Twenty-Seven and Paisa Fourteen

Company quoted on the NSE, preceding the Relevant Date, i.e. Rs. 1464.72 (Rupees One

only) per Equity Share, being higher of the above two prices. Article 14(1)(C) of the Company requires determination of price in case of preferentia issue by a registered valuer. The Company has also obtained a valuation report dated January 16, 2024, issued by FCA Payal Gada, a Chartered Accountant (IBBI Regd. No. IBBI/RV/06/2019/11170, having office at S-15, 2nd floor, Sej Plaza, Marve Road, Malad (West), Mumbai-400064, Maharashtra) to justify the Price and same is available at the website of the Company www.jashindia.com

The issue price is Rs. 1527.50/- (Rupees One Thousand Five Hundred Twenty-Seven and Paisa Fifty Only) per Equity Share the said issue price is higher than the minimum floor price of arrived at, in accordance with the provisions of Chapter V of the ICDR Regulations. his Corrigendum to the EGM Notice shall form an integral part of the EGM Notice, which has

already been circulated to the Shareholders of the Company and on and from the date hereof, the Notice of EGM shall always be read in conjunction with this Corrigendum. All the defined erms used in the Corrigendum have same meaning as ascribed to them in the EGM Notice. This Corrigendum shall also be made available on website of stock exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and on the website of the Company at www.jashindia.com. All other contents of the EGM Notice save and except as modified or supplemented by this Corrigendum, shall remain unchanged.

By Order of the Board For Jash Engineering Limited Tushar Kharpade Company Secretary and Compliance Officer

(₹ in Lakhs Except EPS)

SANDEEP (INDIA) LTD CIN: L51491MH1982PLC350492 301 PL899/F, Corporate Arena, Piramal Nagar Road, Goregaon West, Mahendra Gardens, Mumbai-400062

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND NINE MONTHS ENDED AS ON 31ST DECEMBER, 2023 (Amt in 000)

						(Amt in 000)
DADTICI II ADC	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Nine months Ended	Nine months Ended	Year Ended
PARTICULARS	31-12-2023	30-09-2023	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2022	31-03-2023
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations(net)	13,657.85	5,725.32	7,567.80	22,647.35	26,032.91	27,183.83
Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional						
and Extraordinary items)	12,914.95	5,319.17	4,134.23	21,231.56	8,092.20	8,168.40
Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	40.044.05	5 040 47	4 40 4 00	04 004 50	0 000 00	0.400.40
(after Exceptional and Extraordinary items)	12,914.95	5,319.17	4,134.23	21,231.56	8,092.20	8,168.40
Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	12,542.36	4,557.96	3,934.63	19,537.04	7,951.35	8,194.98
Total Comprehensive Income for the period	12,542.50	4,557.90	3,934.03	19,557.04	7,951.55	0,194.90
(Comprising Profit/(loss) for the period after tax						
and other Comprehensive Income (after tax)	12,542.36	4,557.96	3,934.63	19.537.04	7,951.35	8,194.98
Equity Share Capital (Face value Rs 10)	32,450.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the						
balance sheet of previous year)						7,838.45
Earning Per Share in Rs (of Rs. 10/-each)						
(for continuing and discontinued operations)						
(not annualised)	2.07	1 40	404	600	0.45	2.52
Basic	3.87	1.40	1.21	6.02	2.45	2.53
Diluted	3.87	1.40	1.21	6.02	2.45	2.53

NOTE: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website www.sandeepindia.org and on the website of Calcutta Stock Exchange. 2. The above results have been reviewed by the audit committee and thereafter were approved and taken on record by the Board of Directors

For SANDEEP (INDIA) LIMITED

EIKO LIFESCIENCES LIMITED FEEL THE CHEMISTRY

[Formerly known as Narendra Investments (Delhi) Ltd.] (CIN: L65993MH1977PLC258134)

Place: Indore

Date: 09/02/2024

Regd off: 604, Centrum, Opp. TMC Office, Near Satkar Grand Hotel, Wagle Estate, Thane West MH 400604 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECMBER 31, 2023

Quarter ended Nine Months Ended Year ended Particulars No. 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2023 31-03-2023 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

				A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Action to the second second	
1	Total Income from Operations	662.53	644.09	456.18	1,960.11	1,237.37	1,917.62
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	29.10	16.16	33.93	56.13	64.83	102.62
3	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	23.76	12.09	25.40	43.85	48.59	76.88
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/ (Loss) after tax] and Other Comprehensive Income (after tax)]					2.40	2.40
5	Paid up equity share Capital (Face value Rs 10/-)	997.95	997.95	831.63	831.63	831.63	831.63
6	Earning Per Share (EPS in ₹) (Not annualised) (Basic, Diluted)	0.24	0.12	0.26	0.45	0.50	0.79

held on 8th February 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried Limited Review of aforesaid results.

The above is an extract of the details format of Quarter and Nine Months Ended Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarter and Nine Months ended Financial Results are available on stock exchange website at www.bseindia.com and also on the company's website i.e. www.eikolifesciences.com

> Laxmikant Kabra Chairman & Director

For Eiko Lifesciences Limited

Date: 08-02-2024 Place: Thane

DIN: 00061346

Rashmi Dalmia Managing Director DIN: 01347367